PATBACK BUSINESS LIMITED

(Formerly known as Crazypricing Online Services Limited)

Regd. Office: Shop No. 325, Plot No.3, Aggarwal Plaza, DDA Community Center, Sector-14, Rohini, Delhi-110085 E-mail: crazypricingdel@gmail.com ,Website: www.crazypricingonline.com,Tel.No. 011-27860680 CIN:L74999DL1984PLC018747

August 04, 2021

To, Metropolitan Stock Exchange of India Limited (MSEI) (Formerly known as MCX Stock Exchange Limited) 4th Floor, Vibgyor Towers, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai - 400098

Dear Sir,

Sub.: Newspaper advertisement of Un-audited financial results approved in the board meeting held on Tuesday,03rd day of August, 2021 for the quarter ended June 30, 2021

SYM: PATBACK ISIN: INE401L01019

With reference to the regulation 47 and other applicable regulations, if any of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are submitting herewith the copy of newspaper advertisement of Un-audited financial results approved in the board meeting held on Tuesday, 03rd day of August, 2021 for the quarter ended June 30, 2021 published in English language national daily newspaper circulating in the whole or substantially whole of India i.e. "Financial Express" and Hindi newspaper i.e. "Jansatta" as on Wednesday, August 04, 2021.

Please find enclosed the copy of the same.

Thanking You, Yours truly

For Patback Business Limited (Formerly known as Crazypricing Online Services Limited)

NEW DELHI

DIN: 00749265

Pawan Kumar Mittal Director

Encl: Copy of Newspaper Advertisement

PLACE: BENGALURU

SHRIRAM

DATE: 02.08.2021

FINANCIAL EXPRESS

PURAVANKARA

PURAVANKARA LIMITED

Registered Office #130/1, Ulsoor Road, Bengaluru - 560 042. Tel: +91 80 2559 9000 / 4343 9999, Fax: +91 80 2559 9350. Website: www.puravankara.com, Email: investors@puravankara.com, CIN No. L45200KA1986PLC051571

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. Notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, August 13, 2021, inter-alia:

To consider and approve the Consolidated & Standalone Un-Audited Financial Results of the Company & its subsidiaries for the guarter ended June 30, 2021.

The said notice may be accessed on the Company's website at www.puravankara.com and may also be accessed on the website of stock exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

JINDAL POLY FILMS LIMITED

CIN: L17111UP1974PLC003979 Corp.Off.: Plot No. 12, Sector-B-1, Local Shopping Complex, Vasant Kunj, New Delhi-110070.

Regd. Office: 19" K.M Hapur Bulandshahr Road, P.O Gulaothi, Distt. Bulandshar (UP). Tel: 91-11-40322100 Fax: 91-11-40322129 Website: www.jindalpoly.com

Pursuant to Regulation 29 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors is scheduled to be held on Saturday, August 14, 2021, at New Delhi to consider and approve, inter alia the Un-audited Consolidated and Standalone Financial Statements of the Company for the First Quarter ended June 30, 2021.

Further, as per NSE Circular Ref No: NSE/CML/2019/11 and BSE Circular, LIST/COMP/01/2019-20, both dated April 02, 2019, the Trading Window for dealing in shares of the Company by Designated Persons is already closed from July 01, 2021 till publication of the Financial Result for First Quarter ended June 30, 2021 (both days inclusive) on account of consideration of Financial Statements.

This information is also available on the Company's website at www.jindalpoly.com and the website of the Stock Exchanges, where the Shares of the Company are listed i.e www.bseindia.com & www.nseindia.com. For Jindal Poly Films Limited

Sanjeev Kumar Company Secretary

Welspun Investments and Commercials Limited WELSPUN GROUP Corporate Identification Number L52100GJ2008PLC055195 Regd. Office: Welspun City, Village Versamedi, Taluka Anjar, Dist. Kutch, Gujarat 370110, India.

Tel. No. +91 2836 661111, Fax No. + 91 2836 279010 Email: CompanySecretary WINL@welspun.com; Website: www.welspuninvestments.com Corporate Office: Welspun House, 7th Floor, Kamala City, Senapati Bapat Marg,

Lower Parel (West), Mumbai – 400013. Tel. No. +91 22 66136000, Fax No. +91 22 2490 8020

NOTICE OF BOARD MEETING

lotice is nereby given that pursuant to Regulation 47(1)(a) of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, August 11, 2021, inter alia, to consider and approve the Unaudited Financial Statements of the Company for the quarter

For Welspun Investments and Commercials Limited

Place: Mumbai **Amol Nandedkar Date: August 2. 2021 Company Secretary**

NOTICE REGARDING LOST CERTIFICATE PAN ELECTRONICS (INDIA) LIMITED

Regd. Office: 16B, 1stage, Peenya Industrial Area, Peenya, Bengaluru - 560058, Email Id: cs@panelectronicsindia.com

We, the Shareholder given that below mentioned Share Certificates of Pan Electronics (India) Limited have been reported lost. Any persons having objections to the issue of duplicate share certificates in respect of the said shares should communicate to the Company or Registrars with necessary proof within 15 days from the date of this Notice, failing which the Company will proceed to consider the application for issue of duplicate share certificates in our favour and thereafter any objection/s in this matter will not be entertained.

No.	Nos.	From	To	Snares	Holder Holder
0005100	25001 To 26000	3640081	3740080	100000	MANGAL BHANSHALI JT WITH MEENU BHANSHALI

V.S.T. TILLERS TRACTORS LIMITED

Regd. Office: PB. No. 4801, Mahadevapura Post, Whitefiled Road,

Bengaluru - 560048 Ph. +080-67141111, Email Id: investors@vsttractors.com, Website: www.vsttractors.com

NOTICE REGARDING LOST CERTIFICATE

Name of the Shareholder

Place: Mumbai Date: August 3, 2021 Mangal Bhanshali Meenu Bhanshali

VISIT TILLERS TRACTORS LTD.



CIN- L34101KA1967PLC001706

A VST GROUP Regd. Office: Plot No.1, Dyavasandra Industrial Layout, Whitefield Road,

ended June 30, 2021.

Mahadevapura Post, Bengaluru - 560 048. Ph: 080-67141111, e-mail: investors@vsttractors.com www.vsttractors.com

INFORMATION REGARDING 53rd ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM) AND PAYMENT OF DIVIDEND

- Shareholders may note that the 53rd Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled to be held on Friday, the 27th August, 2021 at 11.00 a.m. IST through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) in compliance with General Circular Nos. 14/2020 dated 8th April 2020, 17/2020 dated 13th April 2020, 20/2020 dated 5th May 2020, 02/2021 dated 13th January 2021 and all other applicable laws and circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Securities and Exchange Board of the (SEBI), to transact the Ordinary and Special business as set out in the Notice of the AGM which is being sent to the Members by email only.
- Company's Regd. Office: Plot No. 1, Dyavasandra Industrial Layout, Whitefield Road, Mahadevapura Post, Bangalore - 560 048 will be considered as venue for the purpose of the AGM.
- 3. In compliance with relevant Circulars, the Notice of the AGM and Annual Report for the financial year 2020-21 will be sent electronically to those Members of the Company, whose email addresses are registered with the Company/ Depositary Participants(s). The aforesaid documents will also be available on the Company's website at www.vsttractors.com as well as on the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.
- The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 21st August 2021 to 27th August 2021 (both days inclusive) for the purpose of ascertaining the Shareholders attending the AGM and payment of Dividend.

5. Members holding shares in physical form or Demat form and have not registered their email address, may procure User ID and Password as mentioned in the 53rd AGM notice or in the following manner for casting their vote through remote e-voting or though the e-voting system during

- a) In case shares are held in physical mode, by writing to the Company with details of Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) to Company on vstagm@vsttractors.com / RTA on irg@integratedindia.in
- b) In case shares are held in demat mode by writing to the Company with details of DPID, Client ID (16 digit DPID +CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self scanned coply of Aadhar card) to Company on vstagm@vsttractors.com / RTA on irg@integratedindia.in.
- The detail procedure for casting the vote through remote e-voting, e-voting during the AGM and procedure for attending the AGM, will be provided in the notice of the AGM. Those members holding shares in physical form, whose email
- addresses are not registered with the Company, may register their email address by communicating/writing to the Company's Register & Share Transfer Agent ("RTA") M/s.Integrated Registry Management Services Private Limited, No. 30, Ramana Residency, 4th Cross, Sampige Road, Malleswaram, Bangalore – 560003, Tel: +91-80-23460815-818 at irg@integratedindia.in along with the copy of the signed request letter mentioning the name and address of the shareholder, Self attested copy of the PAN card and self-attested copy of any document (e.g. Driving License, Election Identity Card, Passport) in support of the address of the shareholder. The members who are holding shares in demat form, can update their email address with their respective Depository Participants.
- The Board of directors of the Company has recommended final dividend of Rs. 20/- per share and same will be paid on or after 31st August 2021 if approved by the shareholders in the ensuing AGM. To avoid delay in receiving the dividend, shareholders are requested to update their complete bank details with their depositories (where shares are held In dematerialized mode) and with the Company's Registrar and Share Transfer Agent (where shares are held in physical mode) at irg@integratedindia.in along with the copy of the signed request letter mentioning the name, folio number, bank details, self-attested pan card and cancelled cheque leaf.

Pursuant to Finance Act, 2020, dividend income will be taxable in the hands of Members w.e.f. April 1,2020 and the Company is required to deduct tax at source from dividend paid to Members at the prescribed rates. For the prescribed rates for various categories, the Members are requested to refer to the Finance Act, 2020 and amendments thereof. The Members are requested to update their PAN with the Company. Registrar and Transfer Agent (in case of shares held in physical mode) and with the Depository Participants (in case of shares held in Demat mode) and submit the documents in accordance with the provisions of Income tax act for claiming tax exemption if applicable on or before 20th August 2021, by submitting the documents in the following link i.e. https://www.integratedindia.in / ExemptionFormSubmission.aspx

for V.S.T. TILLERS TRACTORS LIMITED Place: Bengaluru (Sd/-) Chinmaya Khatua Date: 03/08/2021 Company Secretary

LCC INFOTECH LIMITED CIN-L72200WB1965PLC073196

Regd Office: P-16, C.I.T.Road, Kolkata-700014 Corporate office: 2/5A Sarat Bose Road, Kolkata-20 Email: corporate@locinfotech.co.in Ph-033-40033636/37 • Fax- 033024852932 Website: www.lcoinfotech.co.in

Pursuant to regulation 29 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations 2015, Notice s hereby given that the meeting of the Board of Director of the company is scheduled to be held on Thursda 12th August 2021 at 2 PM at corporate office of the company at 2/5A Sarat Bose Road, Kolkata-70002 West Bengal, to consider and approve interasa the Inaudited Financial Result for the Qtr. ended or

In view of above the trading window for dealing in th securities of the company has been closed for the specified persons from 1st July 2021 till 48 Hrs. from nnouncement of unaudited financial result. The ntimation contained in the notice is also available or he exchange. For LCC Infotech Limite

Date: 02.08.2021 Sidharth Lakhotia Place: Kolkata



BRIGHTCOM GROUP LIMITED Regd. Office: Floor. 5, Fairfield by Marriott, Road No: 2, Nanakramguda,

Gachibowli, Hyderabad - 500032, India. Tel: +91 40 67449910, Fax: +91 22 6645 9677 www.brightcomgroup.com, email: in@brightcomgroup.com CIN:L64203TG1999PLC030996 NOTICE

NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, the 13th day of August 2021 at the Registered Office of the Company for considering and approving among others the Unaudited Financial Results of the Company for the Quarter ended 30th June, 2021.

The Notice is also being made available on the website of the Companywww.brightcomgroup.com and also on the website of the Stock Exchanges www.nseindia.com (National Stock) Exchange of India Limited) and www.bseindia.com (BSE Limited). where the shares of the Company are for BRIGHTCOM GROUP LIMITED

Place: Hyderabad Manohar Mollama Date: 02-08-2021

Company Secretary

CENLUB INDUSTRIES LIMITED Regd. Office: Plot No 233-234 Sector-58 Ballabgarh Fraidabad-121004, Haryana Phone No: 08826794470, 71, 72, 73 Website: www.cenlub.in

> E-mail: cenlub@cenlub.in CIN No: L67120HR1992PLC035087

terms of Regulations 29 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we would like to inform you that a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Saturday, 14th August, 2021 at 4.00 P.M at the Registered Office: Plot No. 233 & 234, Sector-58, Ballabgarh, Faridabad, Haryana -121004 inter alia to transact the following businesses:

- To consider and approve the Un-audited Financial Results of the Company for the Quarter ended 30th June, 2021 (Q1) along with the Limited review Report made by the Auditors of the Company;
- To consider and Approve the draft Director's Report along with its annexures and Corporate Governance Report for the financial year 2020-21
- To Appoint Mrs. Apoorva Singh, Company Secretary in Practice as Scrutinizer for E-Voting at the forthcoming Annual General Meeting.
- To fix the date of Annual General Meeting for the Financial Year 2020-21 and to consider and approve the draft Notice of the 29th Annual General Meeting for the
- To consider any other business with the permission of Chair.

financial year 2020-21.

urther as per the Company's Code of Conduct to regulate, monitor and report trading by insiders, read with SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 and the relevant provisions of the Companies Act. 2013 the trading window for dealing in the Company's shares by the Directors, Designated Employees and their dependents and family members has already been closed w.e.f 1st July, 2021 till 48 hours after the declaration of financial results for the guarter ended 30th June, 2021

Virendra Kumar Gupta Place: Faridabad

Whole Time Director Date: 02.08.2021 DIN: 00006461

For CENLUB INDUSTRIES LIMITED

I, the Claimant given that below mentioned Share Certificates of V.S.T. Tillers Tractors Limited has been reported lost. Any persons having objections to the issue of duplicate share certificates in respect of the said shares should communicate to the Company or Registrars with necessary proof within 15 days from the date of this Notice, failing which the Company will proceed to consider the application for issue of duplicate share certificates in our favour and thereafter any objection/s in this matter will not be entertained. FOLIO CERTAGO DIST.NO. DIST.NO. CHARGO NAME OF THE

NO.	CERT NOS.	FROM	TO	SHAKES	SHARE HOLDER
3554	68854 TO 68856	5342498	5342647	150	VEERENDRA P SHAH (Deceased)
	Bangalore 3.08.2021		AC 10		ne of the Claimant ADMINI V SHAH

GMR Infrastructure Limited

Regd. Office: Naman Centre, 7th Floor, Opp. Dena Bank, Plot No.C-31, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai- 400051 Tel: +91-22-4202 8000 Fax: +91-22-4202 8004 CIN: L45203MH1996PLC2B1138

NOTICE

Transfer of Unpaid Dividend and the Underlying shares on which Dividend is Unpaid / Unclaimed to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Shareholders are hereby informed that pursuant to the provisions of Section 124

of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules") dividend for the financial year 2013-14 which remained unclaimed for a period of seven years is required to be transferred by the Company on October 17, 2021 or such other date as may be prescribed by the Central Government ('CG') to IEPF Authority established by CG. Further, all the shares in respect of which dividend has remained unclaimed for seven consecutive years or more the underlying shares shall also be transferred to IEPF Authority as per the procedure set out in Rules. The required communication in this regard has been sent to the shareholders at heir registered email address available with the Company/ Registrars and Transfe Agent ("RTA") vide email dated August 2, 2021 and to the shareholders whose email address is not registered with the Company/ RTA, the communication has been sent

The complete details of the concerned shareholders whose dividends are unclaimed for seven consecutive years and whose shares are due for transfer to IEPF are available on Company's Website www.gmrgroup.in.

In case the dividends are not claimed by the concerned shareholder(s) before the due date of transfer or such other date as may be prescribed by Central Government, necessary steps will be initiated by the Company to transfer the unclaimed dividends and the underlying shares held by the concerned shareholder(s) to IEPF Authority without further notice as per the procedure set out in Rules.

The shareholder may note that in the event of transfer of shares and the unclaimed lividends to IEPF Authority, concerned shareholder(s) are entitled to claim the ame from IEPF Authority by submitting an online application in the prescribed orm i.e. IEPF-5 available on the website www.iepf.gov.in along with the prescribed documents and by following the procedure set out in Rules. The shareholder may further note that the details of unclaimed dividends and

shares of the concerned shareholder(s) uploaded by the Company on its website www.gmrgroup.in shall be treated as adequate notice in respect of issue of new share certificate(s) in favour of the IEPF Authority, pursuant to the Rules. Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend and underlying equity shares, once transferred to the IEPF

In case shareholders have any queries on the subject matter, please contact the Registrars and Transfer Agent of the Company, Kfin Technologies Private Limited Unit GMR Infrastructure Limited), Selenium, Tower B, Plot No- 31 & 32, Financial

District, Nanakramguda, Serilingampally Hyderabad Rangareddi 500032, Toll Free No.: 1800 309 4001, Email Id: einward.ris@kfintech.com For GMR Infrastructure Limited

Date: August 3, 2021

T. Venkat Ramana Nodal Officer and Company Secretary & Compliance Officer

PATBACK BUSINESS LIMITED (Formerly known as Crazypricing Online Services Limited) CIN: L74999DL1984PLC018747 Regd Off: Shop No. 325, Plot No. 3, Aggarwal Plaza, DDA Community Center,

Sector-14, Rohini, New Dellhi-110085 Email id : crazypricingdel@gmail.com, Website : www.crazypricingonline.com

Ph No: 011-27860680

Extracts of the Standalone Unaudited Financial Results For the Quarter ended June 30, 2021

Rs. in Lakhs Quarter Ended Year Ended 30/06/2021 31/03/2021 30/06/2020 31/03/2021 **Particulars** Un-audited) (Audited) (Un-audited) (Audited) Total income from operations 9.66 11.00 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax (1.44)1.30 Exceptional and/or Extraordinary items) 6.79 Net Profit / (Loss) for the period before tax 1.30 (after Exceptional &/or Extraordinary items) (1.44)6.79 Net Profit / (Loss) for the period after tax

0.96 (after Exceptional &/or Extraordinary items) (1.44)6.45 (1.55)Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)] 24.80 Equity Share Capital 24.80 24.80 24.80 Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet (6.46)(6.46)(6.46)of previous year) (5.49)Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing & discontinued operations) (0.58)2.60 (0.63)0.39 2. Diluted The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results filed with the Stock

Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Audited Financial Results are available on the Website of the Company i.e (www.crazypricingonline.com) and website of the stock Exchange(s) (www.msei.in). The above result have been reviewed by the audit committee and approved by the Board at their meeting held on 03rd August, 2021.

The Financial result have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind-AS) as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Ind-as rules (As amended). For and on behalf of the Board of Directors

Date: 03.08.2021

Standalone

Patback Business Limited Pawan Kumar Mittal (Director) DIN: 00749265

(INR in Million)

Consolidated

RENUKA SUGARS

SHREE RENUKA SUGARS LIMITED

(A WILMAR GROUP COMPANY) Corporate Identification Number: L01542KA1995PLC019046

Reg Off: 2nd and 3nd Floor, Kanakashree Arcade, CTS No.10634, JNMC Road, Nehru Nagar, Belagavi - 590010, Karnataka Investors relations contact: groupcs@renukasugars.com; Website: www.renukasugars.com; Phone: +91-831-2404000, Fax: +91-831-2404961

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2021

		Staridatorie			Consonautea		
Sr. No.	Particulars	3 months ended June 30, 2021	3 months ended June 30, 2020	Previous year ended March 31, 2021	3 months ended June 30, 2021	3 months ended June 30, 2020	Previous year ended March 31, 2021
1	Total income from operations	8,067	13,462	56,116	8,368	13,540	56,856
2	Net Profit/(loss) before tax and exceptional items	(2,283)	(55)	654	(2,410)	(298)	484
3	Net profit/(loss) before tax and after exceptional items	(2,283)	(55)	2,153	(2,410)	(298)	518
4	Net Profit/(loss) after tax and exceptional items	(2,283)	(110)	557	(2,410)	(353)	(1,165)
5	Total comprehensive income for the period [comprising loss for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	(2,227)	(110)	117	(2,484)	(360)	(1,253)
6	Equity share capital	2,128	1,917	2,128	2,128	1,917	2,128
7	Reserves excluding revaluation reserve as per balance sheet of previous accounting year*	-	9 1 5	(8,618)		3. 	
8	Earnings per share (of ₹ 1/- each) (not annualised): a) Basic (INR) b) Diluted (INR)	(1.07) (1.07)	(0.06) (0.06)	0.27 0.27	(1.13) (1.13)	(0.18) (0.18)	(0.57) (0.57)

* Amount of revaluation reserve as at March 31, 2021 is INR 8,646 million.

1. The above is an extract of the detailed format of unaudited financial results filed for the quarter ended June 30, 2021 with the Stock exchanges under Regulation 33 & other applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the said unaudited financial results are available on the Stock exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website (www.renukasugars.com).

2. The above unaudited financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meetings held on August 02, 2021. For Shree Renuka Sugars Limited

New Delhi

Atul Chaturvedi **Executive Chairman**

DIN: 00175355

Place: New Delhi Date: 3rd August, 2021

depositories for this purpose.

cheque leaf.

NOTICE

FOR PURAVANKARA LIMITED

NANI R CHOKSEY VICE CHAIRMAN DIN: 00504555

Place: New Delhi Date: 03.08.2021 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY LIMITED

Corporate Identity Number (CIN): L65191TN1979PLC007874 Registered Office: Sri Towers, Plot No. 14A, South Phase, Industrial Estate, Guindy, Chennai – 600 032,

Tamil Nadu, India. Tel: +91 44 4852 4666. Fax: +91 44 4852 5666. Corporate Office: Wockhardt Towers, Level - 3, West Wing, C-2, G-Block, Bandra - Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051. Tel: +91 22 4095 9595 Fax: +91 22 4095 9597

Website: www.stfc.in Email: stfcricomp@stfc.in RIGHTS ISSUE - AUGUST 2020 REMINDER - II

RIGHTS ALLOTMENT DEMAT SUSPENSE ACCOUNT" 1. In terms of the Rights Issue of the Company vide Letter of Offer dated July 07, 2020 ("LOF"), the Company has kept in a separate demat account titled "STFC RIGHTS ALLOTMENT DEMAT SUSPENSE ACCOUNT" the **Rights Equity Shares** allotted to the shareholders who did not intimate a valid demat account details to

FOR THE ATTENTION OF SHAREHOLDERS WHOSE RIGHTS EQUITY SHARES ARE LYING IN "STFC

- the Company till the date of allotment of Rights Equity Shares. 2. Such shareholders were required to send, within six (6) months from the Allotment Date of the Rights Equity Shares i.e. on or before February 05, 2021, a communication to the Company / KFin Technologies Private Limited, Registrar to the Rights Issue ("KfinTech"), containing the name(s), Indian address, e-mail address, contact details and details of their demat accounts along with copy of self attested PAN and self-attested client master sheet of their demat account either by post, speed post, courier, electronic mail or hand
- delivery, for transfer of the Rights Equity Shares allotted to them to their respective demat accounts. 3. As per the LOF, the Company has sent reminder notices to such shareholders through emails and letters by way of speed post. However, some shareholders have still not provided the requisite demat account details
- as well as the other documents as mentioned above. 4. In the interest of such shareholders and considering the difficulties faced due to the COVID-19 pandemic conditions prevailing in the country, the Board of Directors in its meeting held on June 24,2021 has decided to grant extension of time upto December 31,2021 to such shareholders to submit their demat account details. In this regard, the Company had published an advertisement in this newspaper on April 01, 2021
- besides intimating the concerned shareholders separate emails, for taking appropriate steps. 5. We observe that some shareholders have still not provided the requisite demat account details as well as the other documents as mentioned above. SUCH SHAREHOLDERS ARE REQUESTED TO NOTE THAT in case the above details, complete in all respects, are not received on or before December 31. 2021. such Rights Equity Shares Iving to the credit of the "STFC RIGHTS ALLOTMENT DEMAT SUSPENSE ACCOUNT shall be sold, as provided in the LOF, on the floor of the stock exchanges. The proceeds of such sale (net of brokerage, applicable taxes, administrative and incidental charges) shall be remitted to the bank account of the respective shareholders as per Terms of LOF (refer Page No.427) including Terms of the Issue or as per the details available with the Company or Registrar. In the event of any failure to update your records with the Company or Registrar or depository participants, the Company, Registrar or any other party shall not be liable for any losses suffered. Please note that any amounts that cannot be remitted back to the

shareholders for any reason shall be dealt with in accordance with applicable law. The concerned shareholders are requested to make note of the above and provide the requisite details

Shareholders may write to KFinTech at:- stfc.rights@kfintech.com or Integrated Registry Management Services Private Limited at:- stfcrights@integratedindia.in and to the Company at:- stfcricomp@stfc.in for any further assistance/clarification in this matter.

SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY LIMITED

Vivek Achwal

Company Secretary

Place: Mumbai Date: 03/08/2021

JK PAPER LIMITED CIN: L21010GJ1960PLC018099, Website: www.jkpaper.com Regd. Office: P.O. Central Pulp Mills - 394 660, Fort Songadh, Distt. Tapi, Gujarat Admin. Office: Nehru House, 4 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110 002

Phone: 011-66001132, 23311112-5, E-mail ID: sharesjkpaper@jkmail.com INFORMATION REGARDING 60th ANNUAL GENERAL MEETING

AND BOOK CLOSURE

under Section 103 of the Act.

- Dear Member(s) The Sixtieth Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Tuesday, the 31st August 2021 at 12.30 P.M. through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM), without the physical presence of the members at common venue, in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("the Listing Regulations") read with all applicable Circulars on the matter issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and the Securities and Exchange Board of India (SEBI) to transact the business set out in the Notice calling the AGM. Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of ascertaining the quorum
- Report for the financial year 2020-21 comprising Financial Statements, Board's Report, Auditor's Reports and other documents required to be attached therewith will be sent only through electronic mode to those Members, whose email addresses are registered with the Company or the Depository Participant(s). The aforesaid documents will also be available on the website of the Company at www.jkpaper.com and also on the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively. Notice of AGM will also be available on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at www.evotingindia.com. The Company is providing remote e-voting facility ("remote e-voting") to all its Members to cast

In accordance with the aforesaid circulars of MCA and SEBI, the Notice of AGM and the Annual

for members who are holding shares in physical form or who have not registered their email addresses with Company/DPs), has been provided in the Notice of AGM, which will be sent to Members holding shares in physical mode, who have not registered/updated their email addresses with the Company, are requested to send scanned copy of the following documents by email to the Company at sharesjkpaper@jkmail.com - (i) signed request letter mentioning their name. folio no. and address; (ii) self-attested copy of the PAN Card; and (iii) self-attested copy of any

their votes on all the Resolutions set out in the Notice of AGM. The Company is also providing

the facility of voting through e-voting system during the AGM ("e-voting"). Detailed Procedure for

remote e-voting/e-voting and participation in AGM through VC/OAVM by the Members (including

- document (e.g. Aadhar Card, Driving License, Election Identity Card, Passport) in support of the address of the Member. 5. Members holding shares in physical mode, who have not registered/updated their mandate for receiving dividends directly in their bank accounts through Electronic Clearing Service or any other means ("Electronic Bank Mandate"), can register/update their Bank Mandate to receive dividends directly in their bank accounts, by sending following details/documents in addition to the documents mentioned in para 4 above, by email to the Company at sharesjkpaper@jkmail.com or Company's Registrar & Share Transfer Agent (RTA) i.e, MCS Share Transfer Agent Ltd. at admin@mcsregistrars.com - (i) Bank details (Bank account number, Bank and Branch
- Members holding shares in dematerialised mode, who have not registered/updated their email addresses or Electronic Bank Mandate with the Depository Participant(s), are requested to register/update their email addresses or Electronic Bank Mandate with their Depository Participant(s). Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM including

name and address, IFSC, MICR details), contact no, and valid email address; and (ii) Cancelled

information and instructions for attending the AGM, manner of casting vote through remote e-voting/e-voting during the AGM. Please write to the Secretarial Department of the Company at Gulab Bhawan (Rear Block), 3rd Floor, 6A, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi- 110 002 for any

assistance. Book Closure: Notice is hereby given pursuant to Section 91 of the Act and Regulation 42 of the Listing Regulations that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will be closed from Tuesday, 17th August 2021 to Tuesday, 31st August 2021 (both days inclusive) for the purposes of AGM and determining the entitlement of the Members to the dividend for the financial year ended 31st March 2021, if declared at the AGM. The said dividend after declaration thereof by the Members, will be credited/despatched within three weeks of the conclusion of AGM after deduction of tax as per the provisions of Income-tax Act, 1961, to those Members whose names are borne on the Register of Members of the Company on 31st August 2021 or to their mandatees. In respect of shares held by the Members in dematerialised form, dividend will be credited/despatched on the basis of details of beneficial ownership to be received from the

> For JK Paper Limited Deepak Gupta Company Secretary

Date : August 02, 2021

Place: Mumbai



यू।नवसर्स फाटा इमाजग्स लामटड (पूर्व का जिन्दल फोटो इमेजिंग लिमिटेड) सीआईएन : L22222UP2011PLC103611

कार्पोरेट कार्यालय : प्लॉट नं. 12, सेक्टर-बी-1, लोकल शॉपिंग कॉम्पलेक्स, वसन्त कुंज, नई दिल्ली-110 070 दूरभाष : (011) 40322100, फैक्स : (011) 40322129, वेबसाइट : www. universusphotoimagings.com पंजीकृत कार्यालय : 19 किमी, हापुड़-बुलन्दशहर रोड, पो.ऑ. गुलावठी, जिला बुलन्दशहर (उ.प्र.)

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (''एलओडीआर'') के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के अनुसार एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अन्य बातों के साथ-साथ 30 जून, 2021 को समाप्त प्रथम तिमाही हेतु कम्पनी के अलेखापरीक्षित समेकित तथा स्टैण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर विचार तथा अनुमोदन करने के लिए कम्पनी के निदेशक मण्डल की बैठक शनिवार, 14 अगस्त, 2021 को नई दिल्ली में आयोजित की जानी निर्धारित है। इसके अलावा, एनएसई परिपत्र संदर्भ सं. : NSE/CML/2019/11 तथा बीएसई परिपत्र LIST/COMP/01/2019-20 दोनों दिनांक 2 अप्रैल. 2019 के अनसार वित्तीय विवरणों पर विचार करने हेत निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा कम्पनी के शेयरों में संव्यवहार करने हेतु ट्रेडिंग विंडो पहले ही 01 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2021 को समाप्त प्रथम तिमाही के वित्तीय परिणाम के प्रकाशन तक (दोनों तिथियाँ शामिल) बन्द रहेंगी।

उपर्यक्त सचना कम्पनी की वेबसाइट http://www.universusphotoimagings.com/investor.html तथा स्टॉक एक्सचेंजों की सम्बन्धित वेबसाइटों जहाँ कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, अर्थात www.bseindia.com तथा

कृते यूनिवर्सस फोटो इमेजिंग लिमिटेड सुरेश कुमार

कम्पनी सचिव एसीएस-41503

पंजी. कार्या.: शॉप नं. 325, प्लॉट नं. 3, अग्रवाल प्लाजा, डीडीए कम्युनिटी सेन्टर, सेक्टर-14, रोहिणी, नई दिल्ली-110085 फोनः 011-27860680, ई-मेल आईडीः crazypricingdel@gmail.com

क्रम	विवरण	-	समाप्त तिमाही		समाप्त
सं.		30.06.2021 (अनंकेक्षित)	31.3.2021 (अंकेक्षित)	30.6.2020 (अनंकेक्षित)	31.3.20 (अंकेक्षि
1.	परिचालनों से कुल आय	0.07	9.66	0.45	11.00
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	(1.44)	6.79	(1.55)	1.30
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	(1.44)	6.79	(1.55)	1.30
4.	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाम/ (हानि) (विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों के बाद)	(1.44)	6.45	(1.55)	0.96
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ/ (हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल)	(1.44)	6.45	(1.55)	0.96
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	24.80	24.80	24.80	24.80
7.	आरक्षित (पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाई गई पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित)	(5.49)	(6.46)	(6.46)	(6.46
8.	आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए)				
	क) मूल : ख) तरल :	(0.58) (0.58)	2.60 2.60	(0.63) (0.63)	0.39 0.39

1) उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल की गई का संपूर्ण प्रारूप का सार है। अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप कम्पनी की वेबसाईट (www.crazypricingonline.com) तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट (www.msei.in) तथा पर उपलब्ध है। 2) उपरोक्त परिणामों की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 3 अगस्त, 2021 को आयोजित उनकी बैठक में बोर्ड द्वारा

3) इन वित्तीय परिणामों को इंड-एएस नियमावली (यथा-संशोधित) के साथ पठित कम्पनी के अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक (इंड-एएस) के अनुसार तैयार किया गया है। निदेशक मंडल के लिये तथा उनकी ओर

पैटबैक बिजनेस लिमिटेड के लिंह

पवन कुमार मित्तल (निदेशक

DIN: 00749265

तिथि: 3.8.2021 स्थानः नई दिल्ली

BERVIN INVESTMENT & LEASING LIMITED Regd. Office: 607, Rohit House, 3 Tolstoy Marg, New Delhi-110001 CIN: L65993DL1990PLC039397, Web: www.bervin.com, Email: secretary@bervin.com

Statement of Unaudited Standalone Financial Results for the Quarter Ended 30th June, 2021

(Amount, in Lacs)					
SI.	3	Quarte	r Ended	Year Ended	
No.	Particulars	30.06.2021	30.06.2020	31.03.2021	
3058		Unaudited	Unaudited	Audited	
1.	Total Income from Operations Net Profit/(Loss) for the period before tax	600.74	456.24	506.54	
3.	(before Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit/(Loss) for the period before tax	587.76	413.81	414.94	
4.	(after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit/(Loss) for the period after tax	587.76	413.81	414.94	
5.	(after Exceptional and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period	587.76	413.81	345.70	
5.	(Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income				
	(after tax))	587.76	413.81	345.70	
6. 7.	Equity Share Capital Reserves (excluding Revaluation Reserve)	589.81	589.81	589.81	
	as shown in the Audited Balance Sheet of	1,857.88	997.85	1,857.88	
8.	the previous year Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (For continuing and discontinued operations)	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	
	(1) Basic	9.97	7.02	7.04	
	(2) Diluted	9.97	7.02	7.04	

NOTES:

 No Leasing Business has been undertaken during the quarter. 2) The above results were reviewed by the Audit Committee and thereafter taken on record and approved by Board of Directors at their meeting held on August 03, Figures for the quarter ended 30th June, 2020 and year ended 31st March 2021 have

been regrouped wherever necessary to make them comparable with figures of the current guarter ended 30th June 2021

) As the Company is engaged in a single primary business segment, the disclosure requirement of Accounting Standard (AS-17) 'Segment Reporting' notified under Section 133 of the Companies Act, 2013, read together with paragraph 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 are not applicable.

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges for the quarter ended 30th June, 2021 under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The detailed format of the same is available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) & Company's website (www.bervin.com)

> For and on behalf of the Board of Directors S. K. Murgai (Director)

DIN: 00040348

Place: New Delhi Date: 3rd August 2021

फॉर्म आई एन सी-26

[कंपनीज़ (निगमीकरण) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार] एक राज्य से दसरे राज्य में कंपनी के पंजीकत कार्यालय के बदलाव के लिए समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा

केंद्र सरकार के समक्ष

क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगमीकरण) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (ए) के अन्**सार**

कोवान्टिस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में जिसका पंजीकत कार्यालय जे-103, आर बी आई कॉलोनी, पश्चिम विहार, नई दिल्ली

110063 पर मौजूद है, याचिकाकर्ता आम जनता को यहाँ सुचना दी जाती है कि कंपनी ने कंपनी अधिनियम,

2013 की धारा 13 के तहत केंद्रीय सरकार को आवेदन करने का प्रस्ताव रखा है जिन्होंने 14 जुलाई, 2021 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पृष्टि की मांग की है ताकि कंपनी अपना पंजीकृत कार्याल "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "कर्नाटक राज्य" में बदल सके।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित बदलने से प्रभावित होने की संभावना है, वह या तो एमसीए - 21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फॉर्म डिलीवर कर सकता है या इस सचना के प्रकाशन के चौदह दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, बी-2 विंग, दूसरी मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003, दिल्ली पर डिलीवर कर सकता है या भेज सकता है और साथ ही अपने विरोधों को हलफनामें से समर्थित करके आपत्तियों को उसमें दर्ज कर सकता है और साथ ही नीचे कथित पते पर पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को कॉपी भेजनी आवश्यक है।

रमेश नारायण इमानी

जगह: नई दिल्ली

कोवान्टिस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड जे-103, आर बी आई कॉलोनी पश्चिम विहार नई दिल्ली 110063 नई दिल्ली

> कोवान्टिस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के लिए और उनके स्थान पर रमेश नारायण इमानी निर्देशक

> > डी आई एन: 02081595 दिनांक: 28-7-2021

हिन्दुस्तान अर्बण इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

पंजी. कार्यालय : 7वां तल. कंचनजंगा. 18. बाराखम्भा रोड. नई दिल्ली-110001 ई-मेल : investors@hindusthan.co.in, वेबसाइट : www.hindusthanurban.com सीआईएन : L31300DL1959PLC003141 दूरभाष नं. : +011-23310001-05

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47(1)(ए) के साथ पठित विनियमन 29 के प्रावधानों के अनुपालन में कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक गुरुवार, 12 अगस्त, 2021 को आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य बातों के अलावे 30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों (स्टैण्डएलॉन एवं समेकित) पर विचार तथा अनुमोदन कर उसे अभिलेख में लिये जाएंगे। पनः, हम आपको सचित करना चाहते हैं कि सेबी (इनसाइडर टेडिंग निषेध) विनियमन, 2015 के अनसार कम्पनी की शेयरों में कारोबार के लिये ट्रेडिंग विंडो 1 जुलाई, 2021 से 14 अगस्त, 2021 (दोनों दिवस सहित) तक बंद हैं।

यह सूचना बीएसई लिमिटेड जहां कम्पनी के शेयर्स सूचीबद्ध हैं की वेबसाईट (www.bseindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाईट (www.hindusthanurban.com) पर भी उपलब्ध है। हिन्दस्तान अर्बण इन्फ्रास्टक्चर लिमिटेड के लिये

स्थान : नई दिल्ली एम.एल. बिरमीवाला तिथि : 03.08.2021 अध्यक्ष-वित्त एवं सचिव

मियोदा कॉमिसेयल एण्टरप्राईजेज एंड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड CIN: U65993DL1982PLC013738 पंजी. कार्यालयः 106 (1ला तल) मधुबन टावर, ए-1, वी.एस. ब्लॉक,

शकरपर क्रॉसिंग, दिल्ली-110092, फोन नं.: 011-49901667,

वेबसाईटः www.maryadainvestment.in, ईमेलः macel1982@gmail.com कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू होने वाले अन्य प्रावधानों के साथ पठित सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन 2015 के विनियमन 29, विनियमन 33 तथा विनियमन 47 के अनुपालन में एतदृद्वारा सचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक

मंडल की एक बैठक मंगलवार, 10 अगस्त, 2021 को विडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 जन, 2021 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित स्टैण्डएलॉन वित्तीय विवरणों पर विचार तथा अनमोदन किए जाएंगे। पनः विनिर्दिष्ट व्यक्तियों तथा उनके नजदीकी संबंधियों द्वारा टेडिंग विनियमन, निगरानी तथा सचना आचार संहिता के साथ पठित सेबी (इन्साइडर ट्रेडिंग निषेध) विनियमन, 2015 के अनुपालन में कम्पनी के ट्रेडिंग विण्डो जैसा कि हमारे पत्र तिथि 1 जुलाई, 2021 द्वारा पूर्व में ही सुचित किया गया था, कम्पनी के वित्तीय परिणामों की घोषणा के 48 घंटे तक अर्थात् 12 अगस्त, 2021 तक (दोनों दिवस

विस्तृत विवरणों के लिए निवेशक कम्पनी की वेबसाईट www.maryadainvestment.in तथा स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट www.msei.in देखें।

मर्यादा कॉमर्सियल एण्टरप्राईजेज एंड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड के लिए

सति नाथ दास DIN: 03114586 पताः फ्लैट नं. 302, प्लॉट नं. 86, बी ब्लॉक, विश्वकर्मा कॉलोनी, एम.बी.रोड, पुल पहलाद, दक्षिण दिल्ली-11004

पंजाब नैशनल बैंक 🌑 punjab national bank ...भरोसे का प्रतीका the name you can BANK upon

सामान्य सेवाएं प्रशासन प्रभाग प्रधान कार्यालय, प्लॉट सं.-4, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075 hogad@pnb.co.in; hoinsurance@pnb.co.in

वेतन/पेंशन खाता धारक रक्षा कार्मिकों हेतु समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी के नवीनीकरण के लिए बोलियाँ प्रस्तुत करने हेतु सूचना

पंजाब नैशनल बैंक, भारत की पंजीकृत सामान्य बीमा कंपनियों से वेतन / पेंशन खाता धारक रक्षा कार्मिकों के लिए समृह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी के नवीनीकरण पर सीलबंद बोलियां आमंत्रित करता है।

विस्तृत जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट https://www. pnbindia.in/Tender.aspx पर जाएं।

इच्छक सामान्य बीमा कंपनियां अपनी बोलियाँ 24 अगस्त, 2021 को प्रातः 11:00 बजे तक या इससे पहले मुख्य प्रबंधक, पंजाब नैशनल बँक, सामान्य सेवाएँ प्रशासन प्रभाग, प्रधान कार्यालय, प्लाट सं. 4, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075 को

उक्त के संबंध में कोई भी शुद्धिपत्र / विस्तार की तिथि / स्पष्टीकरण केवल हमारी वेब साइट https://www.pnbindia.in पर जारी किया जाएगा जो कि इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा नियमित रूप से देखी जा सकती है। मुख्य प्रबंधक (011-28044751) 03.08.20221

बैंक ऑफ़ इंडिया BOI

तिथि: 3.8.2021

स्थानः नई दिल्ली

बैंक स्ट्रीट शाखा, बैंक स्ट्रीट शाखा, 2631, बैंक स्ट्रीट, करोल बाग, नई दिल्ली -110005, फोनः 28751871

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए) परिशिष्ट—10 [नियम 8(1)] जबिक अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी ने **बैंक ऑफ इंडिया** की ओर से वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनगर्ठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अन्तर्गेत तथा नियम 13(2) के सपठित प्रतिभृति हित (प्रवर्तन), नियम 2002 के नियम 3 के तहत दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए दिनांक 05.04.2021 को एक माँग नोटिस जारी करके ऋणी मैसर्स स्टर्लिंग ट्युब कंपनी और गारंटर श्री सचिन अग्रवाल और श्रीमती श्रुति अग्रवाल को नोटिस में वर्णित बकाया राशि रू. 2,99,71,505.09/—(रुपये दो करोड़ निन्यानवे लाख इकहत्तर हजार पाँच सौ पाँच और नौ पैसे मात्र) व इस से आगे का ब्याज, व्यय अन्य शुल्कों सहित पूर्ण भूगतान उक्त नोटिस मिलने की तारीख से 60 दिनों के भीतर अदा करने को कहाँ गया

जाती है कि अद्योहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4), सूरक्षा हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित, नियमों के अन्तर्गत दिये गये अधिकारों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्ति का कब्जा दिनांक 31 जुलाई, 2021 को ले लिया है। ऋणी को विशेष रूप से एवं जन साधारण को इस नोटिस के द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे निम्नलिखित संपत्ति से सम्बन्धित कोई लेन देन न करें तथा संपतित में किय गया कोई भी लेन–देन

ऋणी द्वारा उक्त राशि की अदायगी न करने के कारण ऋणी और जन साधारण को यह सूचना दी

बैंक ऑफ इंडिया के बकाया राशि रू. 2,99,71,505.09/—(रुपये दो करोड़ निन्यानवे लाख **इकहत्तर हजार पाँच सौ पाँच और नौ पैसे मात्र)** व इससे आगे के ब्याज, लागत अन्य शुल्कों के

अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधान के तहत, सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में ऋणी का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्तियों / चल संपत्तियों का विवरण

पी—1, पी—2, पी—3, खसरा नंबर 1178 / 1118, ग्राम झिलमिल ताहिरपुर, 'मास्को एस्टेट', पुरानी सीमापुरी, दिल्ली–110095 में स्थित अचल संपत्ति के सभी भाग व अंश जोकि श्री सचिन अग्रवाल के नाम पर है, जिसका क्षेत्रफल – 492.51 वर्ग मीटर **चौहददी**: उत्तर में खला क्षेत्र, दक्षिण में 20 फुटा चौडी सडक, पूर्व में अन्य संपत्ति, पश्चिम में अन्य संपत्ति

स्थानः नई दिल्ली | दिनांकः **31.07.202**0

(रमन गोयल) मुख्य प्रबंधक, प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया

बैंक ऑफ़ इंडिया BO करोल बाग, नई दिल्ली -110005, फोनः 28751871

बैंक स्ट्रीट शाखा, बैंक स्ट्रीट शाखा, 2631, बैंक स्ट्रीट,

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए) परिशिष्ट−1√[नियम 8(1)] जबिक अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी ने **बैंक ऑफ इंडिया** की ओर से वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनगर्ठन तथा प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम, २००२ (२००२ के ५४) के अन्तर्गेत तथा नियम 13(2) के सपठित प्रतिभति हित (प्रवर्तन), नियम 2002 के नियम 3 के तहत दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए दिनांक 05.04.2021 को एक माँग नोटिस जारी करके ऋणी मैसर्स माया इंपेक्स और गारंटर श्रीमती सूषमा रानी, आशीष अग्रवाल और श्रीमती आरती अग्रवाल को नोटिस में वर्णित बकाया राशि रू. 1,81,11,180.20 / – (रुपये एक करोड़ इक्यासी लाख ग्यारह हजार एक सौ अस्सी और बीस पैसे मात्र) व इस से आगे का ब्याज, व्यय अन्य शल्कों सहित पर्ण भगतान उक्त नोटिस मिलने की तारीख से 60 दिनों के भीतर अदा

ऋणी द्वारा उक्त राशि की अदायगी न करने के कारण ऋणी और जन साधारण को यह सूचना दी जाती है कि अद्योहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4), सुरक्षा हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित, नियमों के अन्तर्गत दिये गये अधिकारों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्ति का कब्जा दिनांक 31 जुलाई, 2021 को ले लिया है।

ऋणी को विशेष रूप से एवं जन साधारण को इस नोटिस के द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे निम्नलिखित संपत्ति से सम्बन्धित कोई लेन देन न करें तथा संपतित में किय गया कोई भी लेन–देन बैंक ऑफ इंडिया के बकाया राशि रू. 1,74,72,520.06 /- (रुपये एक करोड चौहत्तर लाख बहत्तर हजार पाँच सौ बीस और छः पैसे मात्र) व इससे आगे के ब्याज, लागत अन्य

अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधान के तहत, सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में ऋणी का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्तियों / चल संपत्तियों का विवरण फ्लैट नंबर 109, भूतल, कोणार्क अपार्टमेंट, प्लॉट नंबर 22, पटपड़गंज, आईपी एक्सटेंशन,

दिल्ली –110092 में स्थित अचल संपत्ति के सभी भाग व अंश जोकि श्रीमती आरती अग्रवाल के नाम है, जिसका क्षेत्रफल – 122 वर्गमीटर चौहददीः उत्तर में सोसाइटी पार्क . दक्षिण में खुला क्षेत्र,

पूर्व में चाहरदीवारी, पश्चिम में फ्लैट नंबर 110

प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया दिनांकः 31.07.2020

(रमन गोयल) मुख्य प्रबंधक, स्थानः नई दिल्ली

मांग सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (कथित नियम) के नियम 3(1) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं प्रवर्तन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (कथित अधिनियम) की धारा 13(2) के तहत। कथित नियमों के नियम 3 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग[ं] आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (आईआईएफएल एचएफएल) (पूर्व की इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) के अधिकृत प्राधिकारी ने कथित अधिनियम कं धारा 13(2) के तहत सर्जदार(रों) से उन्हें निर्गत संबंधित मांग सूचना(ओं) में उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने को कहते हुए मांग सूचनाएं निर्गत की हैं। उपर्युक्त के संदर्भ में एतद्वारा कर्जदार(रों) को एक बार पुनः भुगतान की तिथि तक मांग सूचना की तिथि(यों) से भावी ब्याज सहित यहां नीचे उल्लिखित राशियों का इस सूचना के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने के लिए कहा जाता है। कर्जदार(रों), मांग सूचना की तिथि तक बकाया राशि और ऋण राशि के पुनर्भुगतान की ओर प्रस्तावित प्रतिभृति का विवरण

निम्नलिखित है :-						
कर्जदार(रों)/जमानती(यों) के नाम	मांग सूचना की तिथि एवं राशि	प्रतिभूति आस्ति का विवरण (अचल सम्पत्ति)				
श्री रतीश कुमार सिंह, श्रीमती आशा सिंह, श्री यश कुमार सिंह (प्रॉस्पेक्ट नं. 813305 तथा 823834)	29-जुलाई-2021 प्रॉस्पेक्ट नं. 813305 रु. 8,66,976/- (रुपये आठ लाख छियासट हजार नौ सौ छिहत्तर मात्र) प्रॉस्पेक्ट नं. 823834 रु. 10,01,381/- (रुपये दस लाख एक हजार तीन सौ इक्यासी मात्र)	सम्पत्ति का सम्पूर्ण भाग : फ्लैट नं. ट्विन्ज-सन-5-0701, क्षेत्रफल माप 955 वर्ग पीठ, प्लॉट नं. जीएच 01-बी-1, सेक्टर-ईटीए-1, मिसगुन विन, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, 201308, उत्तर प्रदेश				
श्री विनय कुमार जायसवाल, श्रीमती पूजा पावा (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10012542)	29-जुलाई-2021 रु. 52,25,941/- (रुपये बावन लाख पच्चीस हजार नौ सौ इकतालीस मात्र)	सम्पत्ति का सम्पूर्ण भाग : मकान नं. 9/195 भूतल, क्षेत्रफल माप 3266 वर्ग फीट, सेक्टर-3, राजेन्दर नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद, पिन कोड-201005				
श्री अजय जुनेजा, अजय ट्रेडिंग क. श्री अनु जुनेजा, श्री राज कुमार जुनेजा, श्रीमती रीतू जुनेजा (प्रॉस्पेक्ट नं. 744298)	29-जुलाई-2021 रु. 7,73,460.00/- (रुपये सात लाख तिहत्तर हजार चार सौ साठ मात्र)	सम्पत्ति का सम्पूर्ण भाग : प्लॉट नं. 1095, क्षेत्रफल माप 500 वर्ग गज, सेक्टर-4, अर्बन एस्टेट, गुरुग्राम, हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, 121001, भारत				
श्री हरेन्द्र मलिक, श्रीमती रेणुका, श्री राम तोमर (प्रॉस्मेक्ट नं. 920139 तथा 797148)	30-जुलाई-2021 प्रॉस्पेक्ट नं. 920139 रु. 2,36,393/- (रुपये दो लाख छत्तीस हजार तीन सौ तिरानबे मात्र) प्रॉस्पेक्ट नं.797148 रु. 19,68,879 /-(रुपये उन्नीस लाख अड़सठ हजार आठ सौ उन्यासी मात्र)	सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्साः यूजीएफ-4, आरएचएस, माप 51.09 वर्ग मीटर, बैक साइड, एमएम-74, डीएलएफ, अंकुर विहार, लोनी गाजियाबाद, पिनकोडः 201010, उत्तर प्रदेश				
श्री यशवीर सिंह, श्रीमती पूजा राजपूत (प्रॉस्पेक्ट नं. 739205 तथा 737991	28-जुलाई-2021 प्रॉस्पेक्ट नं. 739205 रु. 51,964.00/- (रुपये इक्यावन हजार नौ सौ चौंसठ मात्र) प्रॉस्पेक्ट नं. 737991 रु. 28,41,840.00/- (रुपये अट्टाईस लाख इकतालीस हजार आठ सौ चालीस मात्र)	सम्पत्ति का सम्पूर्ण भाग : यूनिट ए110/1, प्रथम तल, माप 900 वर्ग फीट, सेक्टर-5, ग्रीन वुड एन्कलेव, वेव सिटी, एनएच-24, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, 201010, भारत				
यदि कर्जदार उपर्यक्त के अनुसार आईआईएफएल एचएफएल का भगतान करने में असफल रहते हैं तो आईआईएफएल एचएफएल कथित अधिनियम की धारा 13(4) तथ						

प्राधिकारी से सम्पर्क करें : शाखा कार्यालय : प्लॉट सं. 30/30ई, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, मेन शिवाजी मार्ग, नजफगढ़ रोड, जगुआर शोरूम के पास, मोती नगर, नई दिल्ली/अथव शाखा कार्यालय : ए-1सी एवं ए-1डी, दसरी मंजिल, नोएडा, सेक्टर-16, नोएडा, गौतम बद्ध नगर-201301/अथवा कॉर्पोरेट कार्यालय : आईआईएफएल टॉवर, प्लॉट नं, 98 फेज-IV, उद्योग विहार, गरुग्राम, हरियाणा। स्थान : दिल्ली/नोएडा तिथि : 04.08.2021 ह./- अधिकृत प्राधिकारी, कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (आईआईएफएल एचएफएल

स्वदेशी पॉलीटेक्स लिमिटेड ीकृत कार्यालय : नई कवी नगर, औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद-201002 (यूपी) CIN: L25209UP1970PLC003320

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं विनियम. 2015 के विनियम 47(1) (ए) अनुसरण एततद्वारा सचना दी जाती है कि कंपनी वं निदेशक मंडल की बैठक बुधवार, 11 अगस्त 2021 को होगी, जिसमें कम्पनी के 30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार कर अनुमोदित किया जायेगा।

स्वदेशी पॉलीटेक्स लिमिटेड स्थानः गाजियाबाद सरभी बसतानी दिनाँकः 03 अगस्त, 2021 (कम्पनी सचिव)

मैक्सप्लस लॉजिस्टिक्स लिमिटेड (पर्व में एमसी-स्टिच लिमिटेड विदित) CIN: L65999DL1985PLC022321 पंजी. कार्यालय: 1, कम्युनिटी सेन्टर, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065 ईमेल: sanjeev.chandra@gmail.com वेब: www.maxpluslogisticslimited.com

टेली. नं.: 011-49057869

सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 29 के साथ पठित विनियमन 47 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किय जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक शनिवार 14 अगस्त, 2021 को पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ उस पर सीमित समीक्षा रिपोर्ट के साथ 30 जून, 2021 को समाप्त तिमाह के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोद

यह सूचना स्टॉक एक्सचैंज की www.msei.in तथ कम्पनी की वेबसाईट www.maxpluslogistic slimited.com पर उपलब्ध है। मैक्सप्ल्स लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के लि

तिथि: 2.8.2021 संजीव चन्द्रा स्थानः दिल्ली निदेशक एवं सीईओ

सेनल्युब इंडस्ट्रीज लि. पंजीकृत कार्यालय : प्लाट नं. 233-234, सेक्टर-58, बल्लभगढ़, फरीदाबाद-121004, (हरियाणा फोन नं.: 08826794470,71,72,73, वेबसाईटः www.cenlub.in.

ई-मेलः cenlub@cenlub.in कॉर्पोरेट पहचान संख्या : L67120HR1992PLC035087 सेबी (सुचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियम 2015 के विनियम 29 के अनसार आपको सचित किय

जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक शनिवार, 14 अगस्त, 2021 को 4.00 बजे अप. में पंजीकृत कार्यालय, प्लॉट नं. 233 एवं 234, सेक्टर-58, बल्लभगढ़ फरीदाबाद, हरियाणा-121004 में आयोजित की जायेर्ग जिसमें अन्य विषयों के अलावे निम्न व्यवसायों को निष्पादित किये जाएंगेः 1. कम्पनी के ऑडिटरों द्वारा की गई सीमित समीक्षा रिपोर्ट

के साथ 30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही (क्यू 1) के लिये कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचान तथा अनुमोदन उसके संलग्णकों तथा वित्त वर्ष 2020-21 के लिये

कॉर्पोरेट अधिशासन रिपोर्ट के साथ निदेशकों के रिपोर्ट के डाफ्ट पर विचार तथा अनुमोदन करने आगामी वार्षिक साधारण सभा में ई-वोटिंग के लिये पर्यवेक्षक के रूप में श्रीमती अपर्वा सिंह, कार्यरत कम्पन सचिव की नियुक्ति करने

िवित्त वर्ष 2020-21 के लिये वार्षिक साधारण सभा क तिथि का निर्धारण तथा वित्त वर्ष 2020-21 के लि 29वीं वार्षिक साधारण सभा के सूचना के प्रारूप विचार तथा अनुमोदन-अध्यक्ष की अनुमति से अन्य किसी व्यवसाय पर विचार करना

पुनः सेबी (इन्सायडर ट्रेडिंग निषेध) विनियमन 2015 तथ कम्पनी अधिनियम, 2013 के संबंधित प्रावधानों के सार पठित इन्सायडरों द्वारा टेडिंग के विनियमन, निगरानी तथ रिपोर्ट के लिये कंपनी की आचार संहिता के अनसा निदेशकों, विनिर्दिष्ट कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों तथ पारिवारिक सदस्यों द्वारा कम्पनी की शेयरों में कारोबार व लिये ट्रेडिंग विंडो 1 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2021 व समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों की घोषणा के बाद 48 घंटे तक बंद रहेंगे।

> सेनल्यूब इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिख विरेन्दर कुमार गुप्त

पूर्ण कालिक निदेशक स्थानः फरीदाबाद तिथि: 02.08.2021 (DIN: 00006461

CIN:U 74900DL2015PTC286136 पंजीकृत कार्यालय : युनिट नं. 1002-03, पर्ल्स बेस्ट हाइट्स-2, प्लॉट नं. सी-9, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली-110034 ई-मेल आईडी : roc@rmoneyindia.com केन्द्र

मनीडायल (डॉट) कॉम प्राइवेट लिमिटेड

सरकार के समक्ष क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरीय क्षेत्र के कार्यालय के माध्यम से कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय, नई दिल्ली कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) तथा

कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5)(क) के मामले में

मनीडायल (डॉट) कॉम प्राइवेट लिमिटेड के मामले मे जिसका पंजीकृत कार्यालय युनिट नं. 1002–03, पर्ल्स बेस्ट हाइट्स-2, प्लॉट नं. सी-9, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपरा, दिल्ली-110034 पर है।

...... आवेदक कम्पन

सार्वजनिक सूचना एतद्वारा जनसामान्य को सचित किया जाता है कि मनीडायल (डॉट) कॉम प्राइवेट लिमिटेड (कम्पनी) अपने पंजीकृत कार्यालय को ''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली'' से ''राजस्थान राज्य'' में परिवर्तित करने के लिए सोमवार, 2 अगस्त, 2021 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के सन्दर्भ में कम्पनी की संस्था नियमावली के उपबन्ध II में परिवर्तन का सुनिश्चितीकरण चाहने के लिए कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 एवं अन्य प्रयोज्य प्रावधानों, यदि कोई हो. के तहत कार्यालय क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय, नई दिल्ली के माध्यम से केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है। कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानान्तरण रं यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक आपत्ति प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में आपत्ति दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेशन मामले मन्त्रालय, बी-2 विंग, दूसरी मंजिल, पंडित दीनदयाल अन्त्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 (ई-मेल : rd. north@mca.gov. in) पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकते हैं या सुपुर्द कर सकते हैं और इसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को उनके उपर्युक्त पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।

मनीडायल (डॉट) कॉम प्राइवेट लिमिटेड

रश्मि मित्तल

तिथि : 02.08.2021 स्थान : दिल्ली

निदेशक डीआईएन : 01615317

प्रयोज्य नियमों के तहत कर्जदारों के पूर्ण जोखिम, लागतों तथा परिणामों पर उपर्युक्त प्रतिभूत आस्तियों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है। अधिक विवरण के लिए अधिकृत

प्ररूप संख्या आईएनसी-25ए क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 41 के मामले में मैसर्ज दमन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालयः द्वारा राम सरन, बी-75, कमला नगर, नई

आम जनता को सूचना दी जाती है कि कंपनी को संपरिवर्तन का अधिकार देने के लिए दिनांक 31 जुलाई. 2021 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में संपरिवर्तन करने की इच्छा रखने वाली कंपनी ने पूर्वोक्त नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 14 के अधीन केन्द्र सरकार को आवेदन किया है। कंपनी के प्रस्तावित परिवर्तन / रिधति के कारण यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होने की संभावना है, तो वह व्यक्ति, इसका कारण देते हुए आपत्ति हलफनामा में उल्लेख करते हुए, जिसमें उनके हित/विपक्ष के आधार हों, इस सूचना के प्रकाशित के चौदह दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय-बी-2विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन,

बी-75, कमला नगर, नई दिल्ली में भी भेज दें। कृते एवं आवेदक की ओर से दिनाकः 04.08.2021 सीताराम मोहता (निदेशक) स्थानः नई दिल्ली डीआईएन: 03485114

सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 को

पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी

आवेदक कंपनी को पंजीकत पते पर द्वारा राम सरन.

Criminal Courts, Ludhiana In The Court Of Ms. Divya Sharma JMIC Ludhiana next date, purpose of case orders and judgments

as well as other case information is available on http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana CNR NO: PBLD03-001790-2019 Next date: 08-10-2021

Kotak Mahindra Bank Mohammad Irfan Notice To: Mohammad Irfan S/o not known R/o House No. 290, Nausana Sheikhpur, Mainather,

Muradabad, U.P.- 244001 whereas it has proved to the satsifaction of this court that you, the above named accused / accused persons can't be served in the ordinary way of servicehence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 8-10-2021 at 10.00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation, take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above saidcase

https://highcourtchd.gov.in/?trs= district_notice& fistrict=ludhiana JMIC Ludhiana

will be heard and determined as per law, in your

absence. for details logon to:

अरावली सिक्यरिटीज एंड फाइनांस लिमिटेड **CIN:** L67120HR1980PLC039125

सेक्टर-44, गुड़गाँव, हरियाणा-122003 फोन: 0124-4556677 ईमेल: info@aravalisecurities.com वेबसाईट: www.aravalisecurities.com

कार्यालय: प्लॉट नं. 136, 4था तल, राइडर हाउस,

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 29, 33, 47 तथा अन्य लागू होने वाले विनियमन, यदि कोई हो, के अनुपालन में अरावली सिक्युरिटीज एंड फाइनांस लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक गुरुवार, 12 अगस्त, 2021 को 3.00 बजे अप. में उसके पंजीकृत कार्यालय- प्लॉट नं. 136, 4था तल, राइडर हाउस, सेक्टर-44, गुड़गाँव-122003 में आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय

अरावली सिक्युरिटीज एंड फाइनांस लिमिटेड स्थानः गुरुगाँव रुचि श्रीवास्तव

कम्पनी सचिव

तिथि: 3.8.2021

परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किए जाएंगे।

इंडियन बैंक 🔉 Indian Bank

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, कॉर्पोरेट कार्यालय, चेन्ने इंडियन बैंक जो एक सार्वजनिक क्षेत्रक अग्रणी बैंक है निम्नलिखित में अभिरुचि रखता है . 1000 डिजिटल साइनेज के कार्यान्वयन हेत्

सर्विसेज की खरीद, इन्स्टालेशन व रखरखाव। . GeM पोर्टल के माध्यम से 4000 डेस्कटॉप पीसी की खरीद।

आवश्यक हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर एवं सपोर्ट

3. GeM पोर्टल के माध्यम से 1000 पासबक प्रिन्टर की खरीद। एक्टिव डाइरैक्टरि के रखरखाव हेतु एक्टिव डाइरैक्टरि मैनेजमेंट सोल्यूशन की खरीद।

विवरण के लिए इच्छुक पार्टियां बँक की वेबसाइट https://www.indianbank.in/tenders देखें।

भगवती ऑक्सीजन लिमिटेड (CIN No: L74899HR1972PLC006203) पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट 5, सेक्टर 25, बल्लभगढ़- 121 004, हरियाणा

शेयर बाजार के साथ एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि 30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी वे अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर परस्पर विचा और अनुमोदन के लिए कंपनी के निदेशकों के बोर्ड

की बैठक 67 पार्क स्ट्रीट, कोलकाता- 700016 वीरवार, 12 अगस्त, 2021 को अपराह्न 03.30 बर्ज आयोजित की जाएगी। कथित जानकारी कंपनी की वेबसाईट www.glob albol.com और शेयर बाजार की वेबसाईर

www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है। बोर्ड के आदेशानुसा

स्थानः कोलकाता ह./- एस. के. शम दिनांक: 03.08.2021

UNO MINDA

मिण्डा इंडस्ट्रीज लिमिटेंड

(CIN: L74899DL1992PLC050333) पंजी.कार्यालयः बी-64/1, वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली-110052 कॉर्पो. कार्यालय: ग्राम नवादा फतेहपुर, पी.ओ. सिकन्दरपुर बड्डा, आईएमटी मानेसर के निकट, गुड़गाँव (हरियाणा)-122004 ई-मेलः investor@mindagroup.com, वेबसाईटः www.unominda.com

फोन: +91 11-49373931, +91 124-2290427, फैक्स: +91 124-2290676

विनियमन 29 के प्रावधानों के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मिंडा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक शनिवार, 14 अगस्त, 2021 को आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ हीं 30 जुन, 2021 को समाप्त तिमाही के लिये कंपनी के अनंकेक्षित वित्तीय (स्टैंडएलॉन एवं समेकित) परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किए जाएंगे। यह सुचना कम्पनी की वेबसाइट www.unominda.com तथा साथ ही स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

> बोर्ड के लिये तथा उसकी ओर से मिन्डा इंडस्ट्रीज लिमिटेड

स्थानः दिल्ली (तरुण कुमार श्रीवास्तव तिथि: 03 अगस्त, 2021 कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियम, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित

प्रपत्र सं. ३ए

याचिका के विवरण का विज्ञापन (एनसीएलटी नियमावली, 2016 के नियम 35 के अनुसार) राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ VI के समक्ष सीएए(सीएए)24/2021 से सम्बद्ध सीएए-82/एनडी/2021 निम्नलिखित के समामेलन के मामले में

सीएसटी-कम्प्यूटर सिमुलेशन टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (अन्तरक कम्पनी-2)

एक्सा पॉवरफ्लो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (अन्तरक कम्पनी-1)

दसौल्ट सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (अन्तरिती कम्पनी) याचिका की सुनवाई की सुचना

ध्यान दें कि एक्सा पॉवरफ्लो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (अन्तरक कम्पनी-1) तथा सीएसटी-कम्प्यटर सिमलेशन टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (अन्तरक कम्पनी-2) के दसौल्ट सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (अन्तरिती कम्पनी) के साथ समामेलन की योजना की स्वीकृति हेतु कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230-232 के तहत कम्पनी याचिका याचिकाकर्ता कम्पनी द्वारा प्रस्तृत की गयी थी और राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ VI (माननीय अधिकरण) द्वारा स्वीकार की गयी थी। कथित याचिका की अन्तिम सुनवाई राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण की नई दिल्ली की पीठ VI

के समक्ष 14 सितम्बर, 2021 को निर्धारित की गयी है। कथित याचिका का समर्थन या विरोध करने के किसी इच्छक व्यक्ति को अपने या अपने अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित अपने नाम तथा पते सहित अपने इरादे की सूचना याचिकाकर्ता के एडवोकेट, याचिकाकर्ता के अधिकृत प्रतिनिधि के पास याचिका की सुनवाई की निर्धारित तिथि से अधिकतम दो दिन पूर्व तक भेजनी होगी। यदि वह याचिका का विरोध करता है तो इस सुचना के साथ उसे विरोध की पृष्ठभूमि या अपने शपथपत्र की एक प्रति भेजनी होगी। याचिका की एक प्रति किसी भी इच्छुक व्यक्ति को इसके लिए निर्धारित शुल्क के भुगतान पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

तिथि : 04.08.2021 कार्यालय: आदित्य कुमार पाण्डेय एण्ड एसोसिएट्स ई 238, एलजीएफ, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली-110048 आदित्य कुमार पाण्डेय ई-मेल आईडी : cs.adityapandey@hotmail.com कम्पनी सचिव

एआरटी हाउसिंग फाइनांस (इंडिया) लिमिटेड (पूर्व में एआरटी एफोर्डेबल हाउसिंग फाइनांस (इंडिया) लिमिटेड विदित)

पंजी. कार्यालयः 107, प्रथम तल, बेस्ट स्काई टॉवर, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034

शाखा कार्यालय : 49, उद्योग विहार, फेज 4, गुरुग्राम, हरियाणा 122015 वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सुचना सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 2(1)(एम)(iv) के अंतर्गत एआरटी हाउसिंग फाइनांस (इंडिया) लिमिटेड, एक वित्तीय संस्थान जिसका पंजीकृत कार्यालय 107. बेस्ट स्काई टावर, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली-110034 में है (यहां के बाद ''प्रतिभूत क्रेडीटर'' वर्णित) के प्राधिकृत अधिकारी के नाते अधोहस्ताक्षरी नीचे

वर्णित ऋण खाता संख्या जिसे एनपीए घोषित किया गया था, में वर्तमान सूचना दे रहे हैं। तिथि देयता 13(2) की तिथि गौरव जैन निवासीः जिन्द रोड, ग्रेन LXKNL05716 न्यु ग्रेन मार्केट, रामनगर तहसील एवं 25.3.2021 ₹. 14,73,008/-7.4.2021 जिला कैथल, हरियाणा में स्थित हाउस 170000879 ऊर्फ गौरव मार्केट के निकट, मॉडल (रु. चौदह लाख एम.सी. नं. 102/9, पुराना प्लॉट नं. टाउन, कैथल हरियाणा-तिहत्तर हजार आठ 12 के अनुसार राम नगर, न्यू ग्रेन सुनीता जैन 136027 एवं एच. नं. मात्र) 25.3.2021 मार्केट के निकट, कैथल, वार्ड नं. 8/19, चंदाना गेट, कानूगो 22, कैथल में स्थित भूमि माप मोहल्ला, कैथल, हरियाण 123.49 वर्ग यार्ड्स, पीआईडी नं. (भारत)-136027 166सी276यू10 (पुराना एमसीके नं 102/19) पर निर्मित मकान की सम्पत्तिः चौहद्दीः टाईटल दस्तावेजों के

संबोध्य व्यक्तियों को एतदुद्वारा निर्देश दिया जाता है कि इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर उक्त राशि का भुगतान करें अन्यथा एएचएफएल यहां वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों मे दी गई प्रतिभुत परिसम्पत्तियों के विरुद्ध प्रतिभृति हित के प्रवर्त्तन के अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिये बाध्य होगा। यह सचना एएचएफएल को उपलब्ध किसी अन्य अधिकार के

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभुत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है। तिथि: 4.8.2021 प्राधिकृत अधिकारी

एआरटी हाउसिंग फाइनांस (इंडिया) लिमिटेड

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे क्लाईट, मेसर्स मुथुट फाईनान्स लि. (GSTIN 32AABCT0343B1Z7), पंजीकृत कार्यालयः तल 2, मुथूट चेम्बर्स, बैनर्जी रोड, कोच्चि – 682018, केरल, भारत, CIN: L65910KL1997PLC011300. दरभाषः +91 484-2396478, 2394712, फैक्सः +91 484-2396506, mails@muthootgroup.com, www.muthootfinance.com ऋण चुकाने में असफल ऋणियों के गिरवी रखे सोने के गहनों (31.03.2020 की अवधि तक NPA खातों & 31.12.2020 की अवधि तक नकली / कम शुद्धता) की निम्नलिखित विवरणों के अनुसार नीलामी करेगी। इच्छक सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं।

Jodhpur-Rajasthan: MAL-1564, MUL-1920, 3126, 3322, 3392, 3437, 4092, 4581, 4598, 4789, 4840, 4860, 5149, 5239, 5576, 6619, 6837,

स्थान: करनाल

6929, 7486, 7487, 7517, 7812, 7854, 7968, 8182, 8285, 8327, Chopasani Road: MAL-1459, 1803, 2179, 2796, MSL-28391, 28449 28450. MUL-5503. 5939. 6102. 6287. 6765. 6828. 7031. 7249. 7299. 7498. 7707. 7896. 8524. 8689. 8716. 8738. 8988. 9108. 9490. 9712 10134, 10699, 10933, 11345, 11529, 11579, 11993, 12067, 12068, 12142, 12472, 12799, 13087, 13122, 13153, 13269, 13282, 13288 13293, 13366, 13380, 13418, 13432, 13526, 13576, 13578, 13692, 13759, 13812, 13848, 13886, 13899, 13920, 13931, 13950, 14008, 14028, 14077, 14137, 14148, 14166, 14190, Jodhpur-Paota Road: MUL-1735, 2438, 2837, 3143, 3585, 3653, 3665, 3904, 4034, 4625, 4688, 5020, 5086, 5116, 5447, 5471, 5750, 5771, 5786, 5919, 5954, Phalodi (RA): MAL-636, 829, 1320, MUL-1463, 2191, 2327, 2401 2489, 2490, 2496, 2861, 3028, 3544, 3589, 3846, 3927, 4094, 4605, 4649, 4697, 4701, 4716, 4743, 4795, 4816, 4838, 4853, 4867 RGL-20, 462, 708, 717, 743, Akhiliya Circle: MAL-1972, 2564, MDL-48, MSL-13683, 13719, 13720, MUL-1607, 4026, 4029, 4229, 4385, 4464, 4501, 4605, 4627, 4689, 4917, 5000, 5023, 5099, 5113, 5114, 5347, 5476, 5745, 5924, 5965, 6027, 6062, 6095, 6227, 6385, 6443, 6548, 6596, 6631, 6636, 6660, 6776, 6857, 7172, 7218, 7221, 7272, 7276, 7326, 7392, 7408, 7588, 7754, 8181, 8290, 8347, 8582, 8628 8709, 8822, 8902, 8954, 9200, 9234, 9300, 9313, 9337, 9409, 9473, 9497, 9523, 9691, 9695, 9714, 9722, 9794, 9795, 9830, 9938, 9946 9966, 10077, 10079, 10127, 10134, 10152, 10172, 10189, 10283, 10317, 10376, 10396, 10425, 10476, 10481, 10487, 10510, 10536, 10538, 10543, 10551, 10565, 10568, 10569, 10570, 10571, 10572, 10573, 10574, 10575, 10591, 10631, 10647, 10667, 10692, 10702 10773, 10823, 10828, 10836, 10839, 10842, 10883, 10906, 10909, 10922, 10924, 10944, 10975, 10992, 10994, 11023, 11035, 11039 11043, 11060, 11076, 11106, 11110, 11163, Sardarpura: MAL-463, MUL-1137, 1971, 2395, 2673, 2752, 2827, 3021, 3103, 3110, 3111, 3169, 3170, MWS-427, 536, 589, 724, 885, 952, 964, 1175, 1429, Saraswati Nagar: MAL-654, 769, 1157, MBL-1110, MUL-3386, 3657 3786, 3827, 3829, 4201, 4259, 4501, 4529, 4540, 4574, 4798, 4804, 4995, 5569, 5587, 5622, 5909, 6094, 6243, 6490, 6493, 6497, 6524 6578, 6618, 6621, 6669, 6676, 6698, 6708, 6801, 6808, 6858, 6924, 6955, 6962, 6966, 6979, 6997, 7005, 7010, 7021, 7030, 7053, 7066 Jodhpur-Mandore Road: MAL-966, 1085, MUL-2254, 2760, 2946, 3017, 3275, 4090, 4203, 4481, 4756, 5045, 5046, 5283, 5359, 5418 5453, 5535, 5552, 5588, 5604, 5771, 5874, 5907, 5924, 5971, 5972, 5990, 6009, 6286, 6306, 6338, 6346, 6371, 6391, 6398, 6399, 6400, 6401, 6470, Jodhpur-Ratanada Road: MAL-868, 871, 975, MUL-2353, 2603, 3018, 3084, 3143, 3208, 3528, 3530, 3572, 3677, 3835, 3895, 4062, 4284, 4291, 4384, 4602, 4637, 4642, 4891, 5052, 5078, 5114, 5145, 5159, 5247, 5326, 5399, 5540, 5648, 5653, 5739, 5790, 6019, 6047, 6092, 6102, 6151, 6158, 6178, 6197, 6269, 6273, 6296, 6304, 6311, 6340, 6341, 6342, 6368, 6392, 6399, 6400, 6416, 6462, 6468, 6488, 6505, 6506, 6530, 6547, 6555, 6572, 6575, 6584, 6587, 6621, 6622, 6672, Bilara-(RA): RGL-288, 339, 350, Jodhpur-Banar Road-(RA): MUL-619, 741, 847, 1039

नकली & कम शहता: Jodhpur-Chopasani Road: MUL-16717, Akhiliya Circle: MUL-4208 द्वितिय नीलामी की तिथि: 12.08.2021, Auction Centre: Second Floor, Plot No. 46, Opp New Kohinoor Cinema, Akhaliya Circle, Jodhpur, Rajasthan-342001

नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी। हालाँकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी दूसरी नीलामी की तारीख को क्रमशः दिये गए नीलामी केंद्र में संचालित की जाएगी / जारी रहेगी आगामी और ऐसी स्थिति मेंजहा इस सब के बावजूद कथित गहनो की नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएं नहीं दी जाएंगी। कोहली एण्ड सोब्ती, एडवोकेट, ए 59ए, पहली मंजिल, लाजपत नगर-॥, नई दिल्ली - 110024

नोट: ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भूगतान करके अपने गहनों की गिरवी छडा

सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडी: auctiondelhi@muthootgroup.com या 7834886464,7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

www.readwhere.com

www.nseindia.com पर उपलब्ध है।

स्थान : नई दिल्ली तिथि : 03.08.2021

पेटबेक बिजनस लिमिटेड

(पूर्व में क्रेजीप्राइसिंग ऑनलाइन सर्विसेस लिमिटेड के नाम से विदित) CIN: L74999DL1984PLC018747

वेबसाईटः www.crazypricingonline.com **3**0 जून, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए अनंकेक्षित स्टैंडएलॉन वित्तीय परिणामों का सार 021 क्षेत) 00